

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,

वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-1312/11-2017/ 400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28-12-18 द्वारा वाणिज्यकर विभाग उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को बीमा कम्पनी के अनुबन्ध होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक विभाग द्वारा चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि इंगित अवधि (दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक) से सम्बन्धित समस्त बीमा दावा प्रकरण, जो आपके अधीनस्थ ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/ खण्डाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं अथवा प्राप्त होते हैं, तो ऐसे समस्त बीमा दावा प्रकरण के निस्तारण की संस्तुति जोन स्तर निम्नवत् गठित समिति द्वारा की जानी होगी :-

- 1- सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर (अध्यक्ष)।
- 2- सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0), वाणिज्य कर। (सदस्य सचिव)
- 3- सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर/खण्डाधिकारी, वाणिज्य कर। (सदस्य)
- 4- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर। (सदस्य)
- 5- सम्बन्धित जोन के वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक। (सदस्य)

यदि आपके जोन में कोई लेखापरीक्षक तैनात न हो तो अपने निकट के जोन के वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षक को नामित कराया जाए।

उक्त समिति द्वारा प्राप्त बीमा दावा प्रकरणों का परीक्षण शासन के पत्रांक संख्या-क0नि0-4-312/11-2018-400(1)/2018 दिनांक 17-05-2018 (उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट [www.comtax.up.nic.in](http://www.comtax.up.nic.in) पर उपलब्ध है) में निर्धारित शर्तों के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर भी विस्तृत विचार करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा :-

- 1- निर्धारित क्लेम फार्म पूर्ण रूप से भरा है अथवा नहीं।
- 2- बीमा शर्तों के अनुसार क्लेम मृतक की पति/पत्नी द्वारा किया गया है, यदि मृतक अविवाहित है तो क्लेम पिता द्वारा किया गया है, यदि पिता नहीं है तो माता द्वारा किया गया है। यदि किसी अन्य द्वारा क्लेम किया गया है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
- 3- एफ0आई0आर0, मृत्यु प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रथम गवाह की रिपोर्ट तथा पंचनामा रिपोर्ट संलग्न है अथवा नहीं।
- 4- फार्म-11 पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं।
- 5- दावेदार का पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रति तथा दावेदार का बैंक विवरण या कैसिल चेक की प्रति संलग्न है अथवा नहीं।

